

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी, सीतामढ़ी ।

पत्रांक :- 1801 पुपरी, दिनांक :- 29/11/2021
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सह-सचिव-
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष बिहार नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054) में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस प्रमंडल अन्तर्गत चल रहे नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054) में स्वीकृत योजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए मो0-17961236.00 (एक करोड़ उन्नासी लाख इकसठ हजार दो सौ छतीस) रूपया मात्र का आवंटन हेतु प्रतिवेदन विहित-प्रपत्र में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

29/11/21


Requisition Format for Scheme Head-MIR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (initial Rectification and Surface Renewal)
 Name of Works Division RWD, Works Division-Sitamarhi.

Sl. No.	Package No	Name of Road	Project ID as per MINS	Administrative Approval (AY) Letter No. & Date	Length (in km)	Administrative Approval													Remarks
						Amount (in lakh)	5 Years Routine Maintenance (in lakh)	Agreement Initial Rectification with Surfacter Renewal (in lakh)	5 Years Routine Maintenance (in lakh)	Agreement No. & Date	Date of completion as per agreement	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer in (mm)	Value of Retention content in Percentage	Provision Total Allocated Amount (in lakh)	% to Date expenditure as per MINS (in lakh)	Requisition against work done (in lakh)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	MIR-N-2019-	Naya Tola to Dhadhi	31607808049	6480	2.400	49,58494	17,64218	62,59935	22,27266	49 MBD/	09.12.2021	2314	0.025	5%	0	0	62,59935	Completed	
2	20	Dhadhi to Kuarhar	316-81037142	13.12.2019	4.600	92,68600	33,26034	117,01301	41,99008	2020-21		2229			0	0	117,01301	Completed	
Total					7,000000	142,27094	50,90252	179,61236	64,26274								179,61236		

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.
 2. 1 p - 10 date Physical Progress has been uploaded in MINS.

Executive Engineer
 RWD, Works Div., Pupri.
 29/12/19

File : C:\Users\BRRDA72\Downloads\rajnish kumar muz\28110954.xls, Section No. 25, Egn test
Name of Customer : Rajnish Kumar, Name of Work/ Road : Naya Tola se Dhadhi, Lab Job number :



J.E

A.E

Executive Engineer
R.W.D, Work D. S. P. Unit

20/11/21

Date	Time	Section No.	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
			in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
28/11/21	9:47:0	25	0.1	220	0	2200	2044	G	26.39593	85.6636	Normal
28/11/21	9:47:30	25	0.1	250	10.1	2500	2288	G	26.39526	85.66426	Normal
28/11/21	9:48:8	25	0.1	170	20.2	1700	1636	G	26.39464	85.66492	Normal
28/11/21	9:48:8	25	0.1	300	20.2	3000	2696	G	26.39408	85.66574	Normal
28/11/21	9:48:43	25	0.1	310	20.2	3100	2778	G	26.39368	85.66665	Normal
28/11/21	9:49:0	25	0.1	250	20.2	2500	2288	G	26.39311	85.66754	Normal
28/11/21	9:49:17	25	0.1	170	20.2	1700	1636	G	26.39277	85.6684	Normal
28/11/21	9:49:17	25	0.1	220	10.1	2200	2044	G	26.39244	85.66931	Normal
28/11/21	9:50:28	25	0.1	340	10.1	3400	3023	G	26.39228	85.67032	Normal
28/11/21	9:51:3	25	0.1	290	0	2900	2615	G	26.39229	85.67123	Normal
28/11/21	9:51:39	25	0.1	170	0	1700	1636	G	26.39171	85.67189	Normal
28/11/21	9:52:0	25	0.1	290	20.2	2900	2615	G	26.39125	85.67281	Normal
28/11/21	9:52:14	25	0.1	250	20.2	2500	2288	G	26.39074	85.67357	Normal
28/11/21	9:52:14	25	0.1	310	30.3	3100	2778	G	26.39023	85.67436	Normal
28/11/21	9:52:14	25	0.1	330	30.3	3300	2941	G	26.3895	85.67503	Normal
28/11/21	9:52:14	25	0.1	310	30.3	3100	2778	G	26.38883	85.67572	Normal
28/11/21	9:52:49	25	0.1	260	30.3	2600	2370	G	26.38817	85.67643	Normal
28/11/21	9:53:0	25	0.1	260	20.2	2600	2370	G	26.38749	85.67714	Culvert
28/11/21	9:53:0	25	0.1	270	20.2	2700	2452	G	26.3872	85.67803	Normal
28/11/21	9:53:24	25	0.1	260	20.2	2600	2370	G	26.38659	85.67877	Normal
28/11/21	9:53:24	25	0.1	300	10.1	3000	2696	G	26.38583	85.67949	Normal
28/11/21	9:54:0	25	0.1	40	60.6	400	575	G	26.38578	85.67956	Normal

$$y = 0 * x^2 + 0.816 * x + 249$$

$$x = 400$$

$$y = 575$$

(R) RURAL ROAD
 Good Average Poor
 <4000 4001-5000 >5001

IRI VALUE=2314
 Machine ID=5324

J.E.
 29-11-21

A.E.
 29-11-21

EE
 Executive Engineer
 R.W.D. Works Dept.
 29/11/21